

## किणिवत चावल

किणिवत चावल प्रीबायोटिक्स का अच्छा स्रोत है, यह विटामिन बी—12 और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। हम में आपको इसे अपने आहार में शामिल करने की सलाह देता हूं।

### एक हिस्से के लिए सामग्री—

1. उबले चावल— 250 ग्राम
2. छाछ—2 कप

### तैयारी –

पके हुए चावल में छाछ मिलाएं और इसे रात भर कमरे के तापमान पर रखें। किणिवत चावल अगली सुबह उपभोग के लिए तैयार हो जाना चाहिए



Fermented  
Rice